








(uten bilder)

Ingrid Schechter   
Ingrid Schechter   
Nandani   
hindi / nynorsk   
|| nivå 2



दिनागि और उसकी गाथें  
Tingi og kyrne



# Barnebøker for Norge

[barnebok.no](http://barnebok.no)

दिनागि और उसकी गाथें / Tingi og kyrne

Skrevet av: Ingrid Schechter

Illustrert av: Ingrid Schechter


Oversatt av: Nandani (hi), Espen Stranger-  
Johannessen, Martine Rørstad Sand (nn)

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge ([barnebok.no](http://barnebok.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons

[Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no)

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>



टिनगी अपनी दादीमाँ के साथ रहता था।


...


Tingi budde saman med bestemor si.

Han brukte å passa på kyrne med henne.

...

वह उनके साथ गाथों की देखभाल करता था।






एक दिन सिपाही आये।

...


Ein dag kom soldatane.



वे अपने साथ गाणों को ले गए।

...


Dei tok kyrne.



वे चुपके से और शान्ति से घर चले गए।

...


Dei sneik seg stille heim.



टिनगी और उसकी दादीमाँ भागे और छुप गए।

...


Tingi og bestemor hans sprang og gøymde seg.



टिनगी और उसकी दादीमाँ बाहर आये जब वह सुरक्षित हो गए।

...


Då det var trygt, kom Tingi og bestemor hans ut.



वे रात तक झुलियाँ में छिपे रहे।

...

Dei gøymde seg i skogen til natta kom.




उन में से एक सिपाही ने उसके ऊपर धेर रख दिया, लेकिन वह

चुप रहा।

...


Ein av soldatane sat foten rett på han, men han sa ikkje eit ord.



वे सिपाही फिर से वापस आये।

...

Då kom soldatane tilbake.



दादीमाँ ने टिनगी को पत्तों के निचे छिपा दिया।

...

Bestemor gøymde Tingi under blada.